

जनपद मीरजापुर

दिनांक 31.01.2021

"थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा 10 किग्रा गांजा (कीमत करीब ₹ 70,000/-) के साथ 03 अभियुक्त गिरफ्तार"

अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों की धरपकड़ व मादक पदार्थों के रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा 10 किग्रा अवैध गांजा के साथ 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। आज दिनांक 31.01.2021 को उ0नि0 आलोक कुमार सिंह चौकी प्रभारी बरकछा व उ0नि0 रणजीत राम मय हमराह क्षेत्र की देखभाल व गश्त में मामूर थे कि इस दौरान अभियुक्त 1- रमाशंकर बिन्द पुत्र स्व0 राजबली निवासी बंगलिया भारतगंज थाना माण्डा जनपद प्रयागराज को 04 किग्रा अवैध गांजा के साथ, 2- हरिनारायण प्रजापति पुत्र राजबली निवासी बिहसड़ा बाजार थाना जिगना मीरजापुर को 03 किग्रा अवैध गांजा के साथ व 3- सुभावनलाल बिन्द पुत्र सियाराम निवासी कर्पूरी थाना मेजा जनपद प्रयागराज को 03 किग्रा अवैध गांजा के साथ लहुरिया छितपुर मोड़ के पास से समय 05.15 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार किये गये अभियुक्तों के विरुद्ध थाना कोतवाली देहात पर एनडीपीएस एक्ट का अभियोग पंजीकृत कर गिरफ्तार अभियुक्तगण को मा0न्यायालय/जेल भेजा गया।

नाम-पता गिरफ्तार अभियुक्तगण—

- 1- रमाशंकर बिन्द पुत्र स्व0 राजबली निवासी बंगलिया भारतगंज थाना माण्डा जनपद प्रयागराज।
- 2- हरिनारायण प्रजापति पुत्र राजबली निवासी बिहसड़ा बाजार थाना जिगना मीरजापुर।
- 3- सुभावनलाल बिन्द पुत्र सियाराम निवासी कर्पूरी थाना मेजा जनपद प्रयागराज।

बरामदगी विवरण—

अभियुक्तगण के पास से कुल 10 किग्रा अवैध गांजा।

गिरफ्तारी / बरामदगी करने वाली पुलिस टीम का विवरण—

- 1- उ0नि0 आलोक कुमार सिंह चौकी प्रभारी बरकछा थाना कोतवाली देहात मीरजापुर।
- 2- उ0नि0 रणजीत राम थाना कोतवाली देहात मीरजापुर।
- 3- हे0का0 सुमित सिंह थाना कोतवाली देहात मीरजापुर।
- 4- हे0का0 महेन्द्र यादव थाना कोतवाली देहात मीरजापुर।
- 5- का0 विनय राय थाना कोतवाली देहात मीरजापुर।
- 6- का0 सीताराम थाना कोतवाली देहात मीरजापुर।

